

सम्पूर्ण चिकित्सा

(अष्टांग इत्ययं पर आधारित)

आयुर्वेदिक दिनचर्या
त्रिदोष सिद्धान्त
गो चिकित्सा
आयुर्वेदिक चिकित्सा
होन्यापेथी चिकित्सा
सौन्दर्यवर्धक चिकित्सा

अष्टांगहृदयम् भाग - प्रथम

(ऋषि बाल्मिक द्वारा रचित)

दिनचर्या
ऋतुचर्या
रोगों की उत्पत्ति के कारण
आहार द्रव्यों का ज्ञान
अन्न द्रव्यों का ज्ञान

अष्टांगहृदयम् भाग - द्वितीय

(ऋषि बाल्मिक द्वारा रचित)

ज्वर चिकित्सा
रक्तपित्त चिकित्सा
कास चिकित्सा
श्वास चिकित्सा
राज्यक्ष्मा चिकित्सा
हृदय रोग
मधुमास चिकित्सा

स्वदेशी भारत

राजीव दीक्षित जी का सम्पूर्ण परिवार
भारत की आजादी का अस्तोच इतिहास
विश्व को भारत की देन
बहुराष्ट्रीय कम्पनी का मकड़जाल
स्वदेशी चिकित्सा
स्वदेशी शिक्षा
स्वदेशी कृषि

जीरो बजट खेती एवं गोमाता चिकित्सा शास्त्र

खेती और गो माँ को बचाने के लिए
शेयर, पीपल द्वारा स्वदेशी कृषि के तरीके

गुरुकुल शिक्षा एवं बाल संस्कार

दिनचर्या
अक्षर एवं प्रसिद्धन
कला एवं कुशल
शरीर शल्य
बाल संस्कार

श्री राजीव दीक्षित जी

गौमाता पंचगव्य चिकित्सा

गौबर, गौत्र आश्रित द्रव्यों बाने जी विधि एवं चोग निदान

- 1) गोदूध (दूध)
- 2) गोपूत्र (पी)
- 3) गोमूत्र (मूत्र)
- 4) गोमूषी (हड्डी)
- 5) गोमेह (गोबर)

रोगी रोग मुक्त बिना दवाई

योगासन
हस्त मुद्रा योग
एक्यूप्रेशर पद्धति

महेश्वरी - 60 पन्ना

स्वदेशी उत्पाद बनाने की विधि भाग - 1

स्वावलम्बी बने और स्वदेशी की ओर चले...
श्री राजीव दीक्षित जी

महेश्वरी राशि - 25 पन्पये

वैदिक गणित

वैदिक गणित के 16 सूत्र एवं 14 उपसूत्र

शुद्ध हिन्दी सीखे!

हिन्दी सीखें

श्री राजीव दीक्षित जी

घरेलू नुस्ख

स्वायत्त जीवन जीने का कला
संवाहकता - शोबिन मिश्रता

श्री राजीव दीक्षित जी

भारत की आजादी का इतिहास

श्री राजीव दीक्षित जी

बहुराष्ट्रीय कम्पनी एवं भौत का व्यापार

भारत की आजादी का इतिहास

गुलामी और लूट का दस्तावेज

श्री राजीव दीक्षित जी

ऋग्वेद

ऋषिः विश्वामित्र

यजुर्वेद

ऋषिः यजुः

अथर्ववेद

ऋषिः अथर्व

सामवेद

ऋषिः साम

महाभारत

श्री राजीव दीक्षित जी

सत्यार्थ प्रकाश

श्री राजीव दीक्षित जी

संविधान

श्री राजीव दीक्षित जी

यूरोप की Private Life

श्री राजीव दीक्षित जी

सत्त्वे स्वराज्य की रूपरेखा

श्री राजीव दीक्षित जी

स्वदेशी चिकित्सा एवं व्यवस्था

स्वस्थ व निरोगी रहने का विज्ञान

श्री राजीव दीक्षित जी

स्वदेशी चिकित्सा

श्री राजीव दीक्षित जी

स्वदेशी चिकित्सा

श्री राजीव दीक्षित जी

सम्पूर्ण चाणक्य नीति

चाणक्य सूत्र और जीवन गाथा

श्री राजीव दीक्षित जी

www.rajivdxt.com

स्वदेशी अपनाओं देश बचाओ

श्री राजीव दीक्षित जी